

Deu

Chapter 14

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

בֵּין קָרְתָּהּ תְּשִׂימוּ וְלֹא- תִתְגַּדְּדוּ לָא אֱלֹהֵיכֶם לִיהוָה אַתֶּם בְּנִים 1
बीच गंजापन रखोगी-तुम और-नहीं काटोगी-अपने-आप-को नहीं एलोहीम-तुम्हारे के-यहोवा ही-तुम पुत्र
[H0996](#) [H7144](#) [H3808](#) [H1413](#) [H3808](#) [H0430](#) [H3068](#)

לְמַת: עֵינֵיכֶם
के-लिए-मृत आँखों-तुम्हारी
[H4191](#)

“तुम यहोवा अपने परमेश्वर के बच्चे हो। यदी कोई मरे तो तुम्हें अपने को शोक में पड़ा दिखाने के लिए स्वयं को काटना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने सिर के अगले भाग के बाल नहीं कटवाने चाहिए।

לֹא לְהִיּוֹת יְהוָה יְהוָה וּבְךָ אֱלֹהֵינוּ לִיהוָה אַתָּה קְרוֹשׁ עַם כִּי 2
को-उस होने यहोवा-ने चुना और-को-तुझ एलोहीम-तेरे के-यहोवा ही-तू पवित्र लोग क्योंकि
[H1961](#) [H3068](#) [H0977](#) [H0430](#) [H3068](#) [H6918](#)

ס הָאָרֶץ: פִּי עַל- אֲשֶׁר הָעַמִּים מְכַלֵּי סִגְלָה לְעַם
— भूमि-के मुख पर जो लोगों-में से-सब खास के-लिए-लोग
[H0127](#) [H6440](#) [H3605](#) [H5459](#)

क्यों? क्योंकि तुम अन्य लोगों से भिन्न हो। तुम यहोवा अपने परमेश्वर के विशेष लोग हो। उसने संसार के सभी लोगों में से, तुम्हें अपने विशेष लोगों के रूप में चुना है।

לֹא תֹעֲבָה: כָּל- תֹאכַל לֹא 3
घृणा सब खाओ नहीं
[H8441](#) [H3605](#) [H0398](#) [H3808](#)

“ऐसी कोई चीज न खाओ, यहोवा जिसे खाना बुरा कहता है।

: עֲזִים וְשָׂה כְּשָׂבִים שָׂה שֹׁר תֹאכְלוּ אֲשֶׁר הַבְּהֵמָה וְאֵת 4
बकरियों-की और-बच्चा भेड़ों-की बच्चा बैल खाओगे-तुम जिसे पशु यह
[H5795](#) [H7716](#) [H3775](#) [H7716](#) [H7794](#) [H0398](#) [H0929](#) [H2063](#)

तुम इन जानवरों को खा सकते हो: गाय, भेड़, बकरी,

: זִמְרָה וְתֵאוּ וְדִישָׁן וְאֶקֶן וְיִהְמוֹר וְצָבִי אֵיל 5
और-पहाड़ी-भेड़ और-जंगली-बैल और-पहाड़ी-बकरी और-जंगली-बकरी और-जंगली-बैल और-चिकारा हिरन
[H2169](#) [H8377](#) [H1788](#) [H0689](#) [H3180](#) [H0354](#)

हिरन, निलगाय, मृग, जंगली भेड़, जंगली बकरी, चीतल और पहाड़ी भेड़।

גְּרָה מַעֲלֵת פְּרֻסוֹת שְׂרָי שֶׁסַע וְשֶׁסַע פְּרוֹחַ מַפְרָסוֹת בְּהֵמָה וְכָל- 6
जुगाली उगाने-वाला खुरों-में दो चीर और-फाड़ने-वाला खुर चीरने-वाला पशु और-सब
[H1625](#) [H5927](#) [H6541](#) [H8147](#) [H8157](#) [H8156](#) [H6541](#) [H6536](#) [H0929](#) [H3605](#)

: תֹאכְלוּ: אֶתְהָ בְּהֵמָה
खाओगे-तुम को-उस में-पशुओं
[H0398](#) [H0853](#) [H0929](#)

तुम ऐसे किसी जानवर को खा सकते हो जिसके खुर दो भागों में बंटे हों और जो जुगाली करते हों।

הַשְׂסוּעָה	הַפְּרֹטָה	וּמִמְפְּרִיטֵי	הַגְּרָה	מִמְעֵלֵי	תֹּאכְלוּ	לֹא	זֶה	אֶת־	אֵיךְ	7	
फाइ-हुए	खुर-के	और-से-चीरने-वालों	जुगाली-के	से-उगाने-वालों	खाओगे-तुम	नहीं	इसे	को	बस		
H8156	H6541	H6536	H1625	H5927	H0398	H3808	H2088	H0853	H0389		
לֹא	וּפְרֹטָה	הֲמָה	גְּרָה	מִמְעֵלָה	כִּי־	הַשְּׂפֹן	וְאֶת־	הָאֲרָנֹת	וְאֶת־	הַגְּמֹל	אֶת־
नहीं	और-खुर	हैं-वे	जुगाली	उगाने-वाला	क्योंकि	पहाड़ी-बिज्जू	और-को	खरगोश	और-को	ऊँट	को
H3808	H6541	H1992	H1625	H5927			H0853	H0768	H0853	H1581	H0853

הַפְּרִיטֵי הֵם לָכֵם :
 चीरते हैं-वे को-तुम
[H1992](#) [H2931](#) [H6536](#)

किन्तु ऊँटों, खरगोश या चहानी बिज्जू को न खाओ। ये जानवर जुगाली करते हैं किन्तु इनके खुर फटे नहीं होते। इसलिए ये जानवर तुम्हारे लिए शुद्ध भोजन नहीं हैं।

לָכֵם	הוּא	טָמֵא	גְּרָה	וְלֹא	הוּא	פְּרֹטָה	מִפְּרִיטֵי	כִּי־	הַחֲזִיר	וְאֶת־	8
को-तुम	है-वह	अशुद्ध	जुगाली	और-नहीं	है-वह	खुर	चीरने-वाला	क्योंकि	सूअर	और-को	
	H1931	H2931	H1625	H3808	H1931	H6541	H6536		H2386	H0853	
		ס	תְּנֵעוּ :	לֹא	וּבְנִבְלָתָם	תֹּאכְלוּ	לֹא	מִבְּשָׂרָם			
		—	छूओगे-तुम	नहीं	और-को-लाश-उसकी	खाओगे-तुम	नहीं	से-मांस-उसके			
			H5060	H3808	H5038	H0398	H3808	H1320			

तुम्हें सूअर नहीं खाना चाहिए। उनके खुर फटे होते हैं, किन्तु वे जुगाली नहीं करते। इसलिए सूअर तुम्हारे लिए स्वच्छ भोजन नहीं है। सूअर का कोई माँस न खाओ और न ही मरे हुए सूअर को छुओ।

וְקִשְׁקֹשֶׁת	סַנְפִּיר	לֹא	אֲשֶׁר־	כָּל־	בְּמַיִם	אֲשֶׁר	מִכָּל־	תֹּאכְלוּ	זֶה	אֶת־	9
और-छिलके	पंख	को-उस	जिसके	सब	में-पानी	जो	से-सब	खाओगे-तुम	इसे	को	
H7193	H5579			H3605	H4325		H3605	H0398	H2088	H0853	
											תֹּאכְלוּ :
											खाओगे-तुम
											H0398

“तुम ऐसी कोई मछली खा सकते हो जिसके डैने और चोइटें हों।

ס	לָכֵם :	הוּא	טָמֵא	תֹּאכְלוּ	לֹא	וְקִשְׁקֹשֶׁת	סַנְפִּיר	לֹא	אֵי־	אֲשֶׁר	וְכָל־	10
—	को-तुम	है-वह	अशुद्ध	खाओगे-तुम	नहीं	और-छिलके	पंख	को-उस	नहीं	जिसके	और-सब	
		H1931	H2931	H0398	H3808	H7193	H5579		H0369		H3605	

किन्तु जल में रहने वाले किसी ऐसे प्राणी को न खाओ जिसके डैने और चोइटें न हों। ये तुम्हारे लिए शुद्ध भोजन नहीं हैं।

כָּל־	צִפּוֹר	טְהוֹרָה	תֹּאכְלוּ :	11
सब	पक्षी	शुद्ध	खाओगे-तुम	
H3605	H6833	H2889	H0398	

“तुम किसी शुद्ध पक्षी को खा सकते हो।

וְהַעֲזוּבָה :	וְהַפֶּרֶס	הַגִּישָׁר	מֵהֶם	תֹּאכְלוּ	לֹא־	אֲשֶׁר	וְזֶה	12
और-ओज्जियाह	और-हड्डा-गिद्ध	गिद्ध	से-उनमें	खाओगे-तुम	नहीं	जिसे	और-यह	
H5822	H6538	H5404	H1992	H0398	H3808		H2088	

किन्तु इन पक्षियों में से किसी को न खाओ: चील, किसी भी तरह के गिद्ध, बज्जर्द, किसी प्रकार का बाज, कौवे, तीतर, समुद्री बत्तख, किसी प्रकार का उल्लू, पेलिकन, कॉरमारन्त सारस, किसी प्रकार का बगुला, नौवा या चमगादड़।

לְמִינֵהּ :	וְהַדָּבָה	הַחֲיָה	וְאֶת־	וְהַרְאָה	13
जाति-उसकी-अनुसार	और-दायाह	चील	और-को	और-राआह	
H4327	H1772	H0344	H0853	H7201	

किन्तु इन पक्षियों में से किसी को न खाओ: चील, किसी भी तरह के गिद्ध, बज्जर्द, किसी प्रकार का बाज, कौवे, तीतर, समुद्री बत्तख, किसी प्रकार का उल्लू, पेलिकन, कॉरमारन्त सारस, किसी प्रकार का बगुला, नौवा या चमगादड़।

14 וְאֵת כָּל-עֶרְבֵי לְמִינֵהוּ :
 और-को सब कौवा जाति-उसकी-अनुसार
[H4327](#) [H6158](#) [H3605](#) [H0853](#)

किन्तु इन पक्षियों में से किसी को न खाओ: चील, किसी भी तरह के गिद्ध, बज्जर्द, किसी प्रकार का बाज, कौवे, तीतर, समुद्री बत्तख, किसी प्रकार का उल्लू, पेलिकन, कॉरमारन्त सारस, किसी प्रकार का बगुला, नौवा या चमगादड़।

15 וְאֵת בֵּת הַיְעֻזָּה וְאֵת הַתְּחָמָס וְאֵת הַשָּׁחָף וְאֵת הַבָּיִץ לְמִינֵהוּ :
 और-को पुत्री और-को तखमास और-को शाखफ और-को बाज जाति-उसकी-अनुसार
[H4327](#) [H0853](#) [H7828](#) [H0853](#) [H8464](#) [H0853](#) [H3284](#) [H1323](#) [H0853](#)

किन्तु इन पक्षियों में से किसी को न खाओ: चील, किसी भी तरह के गिद्ध, बज्जर्द, किसी प्रकार का बाज, कौवे, तीतर, समुद्री बत्तख, किसी प्रकार का उल्लू, पेलिकन, कॉरमारन्त सारस, किसी प्रकार का बगुला, नौवा या चमगादड़।

16 אֶת-הַכּוֹס וְאֵת-הַיְנֻשׁוּף וְהַתְּנַשְׁמֶת :
 को उल्लू और-को यन्शूफ और-तिनशमेत
[H8580](#) [H3244](#) [H0853](#) [H0853](#)

किन्तु इन पक्षियों में से किसी को न खाओ: चील, किसी भी तरह के गिद्ध, बज्जर्द, किसी प्रकार का बाज, कौवे, तीतर, समुद्री बत्तख, किसी प्रकार का उल्लू, पेलिकन, कॉरमारन्त सारस, किसी प्रकार का बगुला, नौवा या चमगादड़।

17 וְהַקָּאָת וְאֵת-הַרְחֻמָּה וְאֵת-הַשָּׁלָךְ :
 और-काअत और-को राखमाह और-को शालख
[H7994](#) [H0853](#) [H7360](#) [H0853](#) [H6893](#)

किन्तु इन पक्षियों में से किसी को न खाओ: चील, किसी भी तरह के गिद्ध, बज्जर्द, किसी प्रकार का बाज, कौवे, तीतर, समुद्री बत्तख, किसी प्रकार का उल्लू, पेलिकन, कॉरमारन्त सारस, किसी प्रकार का बगुला, नौवा या चमगादड़।

18 וְהַחֲסִידָה וְהָאֲנָפָה לְמִינֵהוּ וְהַדְּבִיבָה וְהַעֲטָלָה :
 और-खसीदाह और-अनाफाह जाति-उसकी-अनुसार और-चमगादड़ और-दुखीफत
[H5847](#) [H1744](#) [H4327](#) [H0601](#) [H2624](#)

किन्तु इन पक्षियों में से किसी को न खाओ: चील, किसी भी तरह के गिद्ध, बज्जर्द, किसी प्रकार का बाज, कौवे, तीतर, समुद्री बत्तख, किसी प्रकार का उल्लू, पेलिकन, कॉरमारन्त सारस, किसी प्रकार का बगुला, नौवा या चमगादड़।

19 וְכֹל-שָׂרִיץ וְהָעוֹף אֲשֶׁר-לֹא-יָאָכְלוּ :
 और-सब रेंगने-वाले पक्षी-के अशुद्ध है-वह को-तुम खाए-जाएं
[H0398](#) [H3808](#) [H1931](#) [H2931](#) [H5775](#) [H8318](#) [H3605](#)

“पंख वाले कीड़े तुम्हारे लिए शुद्ध भोजन नहीं हैं। तुम्हें उनको नहीं खाना चाहिए।

20 כָּל-עוֹף-שָׁמַיִם וְכָל-חַיָּוָה וְכָל-חַיָּוָה אֲשֶׁר-לֹא-יָאָכְלוּ :
 सब पक्षी शुद्ध खाओगे-तुम
[H0398](#) [H2889](#) [H5775](#) [H3605](#)

किन्तु तुम किसी शुद्ध पक्षी को खा सकते हो।

21 לֹא-תֹאכְלוּ מִכֹּל-חַיָּוָה אֲשֶׁר-לֹא-יָאָכְלוּ :
 नहीं खाओगे-तुम को-परदेशी जो में-फाटकों-तेरे दोगे-उसे-तू और-खाएगा-वह
[H0398](#) [H5414](#) [H8179](#) [H1616](#) [H5038](#) [H3605](#) [H0398](#) [H3808](#)

מִכֹּרֵי-לְבָנָיִם וְעִמּוֹת וְעִמּוֹת וְעִמּוֹת וְעִמּוֹת וְעִמּוֹת וְעִמּוֹת וְעִמּוֹת וְעִמּוֹת וְעִמּוֹת :
 बेचो को-विदेशी क्योंकि लोग पवित्र हो-तू के-यहोवा एलोहीम-तेरे नहीं पकाओगे-तू बकरी-का-बच्चा
[H1423](#) [H1310](#) [H3808](#) [H0430](#) [H3068](#) [H6918](#) [H5237](#) [H4376](#)

בְּחֵלֶב-אֵמָּה :
 में-दूध माता-उसकी-के
[H0517](#) [H2461](#)

“अपने आप मरे जानवर को न खाओ। तुम मरे जानवर को अपने नगर के विदेशी को दे सकते हो और वह उसे खा सकता है अथवा तुम मरे जानवर के विदेशी के हाथ बेच सकते हो। किन्तु तुम्हें मरे जानवर को स्वयं नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के हो। तुम उसके विशेष लोग हो। “बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में न पकाओ।

שָׁנָה : वर्ष	שָׁנָה वर्ष	הַשָּׂדֶה खेत-से	הַיָּצָא निकलने-वाली	זְרָעָה बीज-अपने-की	תְּבוּאָת फसल	כָּל- सब	אֵת को	תְּעֹשֶׂה दशमांश-दोगे-तू	עֲשֶׂה दशमांश-देना	22
H8141	H8141		H3318	H2233	H8393	H3605	H0853	H6237	H6237	

“तुम्हें हर वर्ष अपने खेतों में उगाई गई फसल का दसवाँ भाग निश्चयपूर्वक बचाना चाहिए।

מְעֹשֶׂה दशमांश	שָׁם वहाँ	שְׁמוֹ नाम-अपना	לְשָׂכְנוֹ बसाने	יִבְחַר चुनेगा	אֲשֶׁר- जिसे	בְּמָקוֹם में-स्थान	אֱלֹהִים एलोहीम-तेरे	יְהוָה यहोवा	וּלְפָנָיו के-सामने	וְאֶכְלָהּ और-खाएगा-तू	23
H4643	H8033	H8034	H7931	H0977		H4725	H0430	H3068	H6440	H0398	

תְּלַמֵּד सीखी	לְמַעַן ताकि	וּצְאָנָהּ और-भेड़ों-अपनी-की	בְּקָרָהּ गायों-अपनी-के	וּבְכֹרֹת और-पहिलौठों	וַיִּצְהָרֶהָ और-तेल-अपना	תִּירָשָׁהּ दाखरस-अपनी	הַגֶּנֶז अन्न-अपने-का
H3925	H4616	H6629	H1241	H1062	H3323	H8492	H1715

לְיָרְאָהָ डरना	אֵת- से	יְהוָה यहोवा	אֱלֹהִים एलोहीम-तेरे	כָּל- सब	הַיָּמִים : दिनों
H3372	H0853	H3068	H0430	H3605	H3117

तब तुम्हें उस स्थान पर जाना चाहिए जिसे यहोवा अपना विशेष निवास चुनता है। वहाँ यहोवा अपने परमेश्वर के साथ अपनी फसल का दशमांश, अन्न का दसवाँ भाग, तुम्हारा नया दाखमधु, तुम्हारा तेल, झुण्ड और रेवड़ में उत्पन्न पहला बच्चा, खाना चाहिए। तब तुम यहोवा अपने परमेश्वर का सदा सम्मान करना सीखोगे।

הַמָּקוֹם स्थान	מִמֶּנּוּ से-तुझ	יָרַח दूर-होगा	כִּי- जब	שָׂאתָ उठाना-उसे	תִּזְכֹּר सकेगा-तू	לֹא नहीं	כִּי कि	תִּהְיֶה राह	מִמֶּנּוּ से-तुझ	יִרְבֶּה बढ़ेगी	וְכִי- और-यदि	24
H4725		H7368		H5375	H3201	H3808		H1870				

אֱלֹהִים : एलोहीम-तेरा	יְהוָה यहोवा	יְבָרְכֶהָ आशीर्वाद-देगा-तुझे	כִּי जब	שָׁם वहाँ	שְׁמוֹ नाम-अपना	לְשֹׂם रखने	אֱלֹהִים एलोहीम-तेरा	יְהוָה यहोवा	יִבְחַר चुनेगा	אֲשֶׁר जिसे
H0430	H3068	H1288		H8033	H8034		H0430	H3068	H0977	

किन्तु वह स्थान इतना दूर हो सकता है कि तुम वहाँ तक की यात्रा न कर सको। यह सम्भव है कि यहोवा ने फसल का जो वरदान दिया है रउसका दसवाँ भाग तुम वहाँ न पहुँचा सको। यदि ऐसा होता है तो यह करो:

יִבְחַר चुनेगा	אֲשֶׁר जिसे	הַמָּקוֹם स्थान	אֶל- पास	וְהִלַּכְתָּ और-जाओगे-तू	בְּיָדָהּ में-हाथ-अपने	הַכֶּסֶף चाँदी	וְצִרְתָּ और-बाँधोगे-तू	בְּכַסְף में-चाँदी	וְנָתַתָּה और-दोगे-तू
H0977		H4725	H0413	H1980	H3027	H3701		H3701	H5414

יְהוָה यहोवा	אֱלֹהִים एलोहीम-तेरा	בּוֹ : में-उस
H3068	H0430	

अपनी फसल का वह भाग बेच दो। तब उस धन को लेकर यहोवा द्वारा चुने गए विशेष स्थान पर जाओ।

וּבְשָׂרָהּ और-में-मदिरा	וּבְלֵיָן और-में-दाखरस	וּבְצֹאֵן और-में-भेड़ों	בְּבָקָר में-गायों	נִפְשָׁהּ प्राण-तेरा	תִּאֲוָה चाहती-है	אֲשֶׁר- जो	בְּכָל में-सब	הַכֶּסֶף चाँदी	וְנָתַתָּה और-दोगे-तू	26
H7941	H3196	H6629	H1241	H5315	H0183		H3605	H3701	H5414	

אֱלֹהִים एलोहीम-तेरे	יְהוָה यहोवा	לְפָנָיו के-सामने	שָׁם वहाँ	וְאֶכְלָהּ और-खाएगा-तू	נִפְשָׁהּ प्राण-तेरा	תִּשְׁאַלְתָּ माँगी-है-तुझसे	אֲשֶׁר जो	וּבְכָל और-में-सब
H0430	H3068	H6440	H8033	H0398	H5315	H7592		H3605

וְשִׂמְחָתָהּ और-आनन्दित-होगा-तू	אֲתָהּ तू	וּבִיתָהּ : और-घराना-तेरा
H8055		

उस धन का उपयोग जो कुछ तुम चाहो उसके खरीदने में करो—गाय, भेड़, दाखमधु या अन्य स्वादिष्ट पेय या कोई अन्य चीज़ जो तुम चाहते हो। तब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खाना चाहिए और यहोवा अपने परमेश्वर के साथ वहाँ उस स्थान पर आनन्द मनाना चाहिए।

